

## प्रेस विज्ञप्ति

### दिव्यांगजन के लिए विशेष रोजगार मेला

नई दिल्ली : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय निगम नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डिवैल्पमेंट कारपोरेशन द्वारा दिनांक 7-8 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में दिव्यांगजन के लिए दो दिवसीय रोजगार / नौकरी मेले का आयोजन किया जा रहा है. इस रोजगार मेले में भारत सरकार के विभिन्न संगठन जैसे विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र(वीआरसीएच), नई दिल्ली, हार्डीकॉन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड(एनएसआईसी), विकलांगजन कौशल विकास परिषद की भागीदारी है. इस मेले का उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा किया.

दिव्यांगजन के लिए विशेष रोजगार / नौकरी मेले में निजी क्षेत्र की लगभग तीस कंपनियों को बुलाया गया है. विभिन्न कंपनियों / इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से 7 सितम्बर, 2016 को दिव्यांगजन का असेसमेंट करके उस असेसमेंट के आधार पर दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को दिव्यांगजन को विभिन्न नौकरियां प्रदान करने के लिए उनका इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके अलावा दिव्यांगजन को भारत सरकार की स्वरोजगार योजनाओं, अध्ययन छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण के मौकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए दक्षता प्रशिक्षण हेतु उनका चयन भी किया जाएगा. इस अवसर पर एनएचएफडीसी, वीआरसीएच, एनएसआईएस, स्किल काउन्सिल फार डिसेबल, डीएसएफडीसी, पीएनबी, आईडीबीआई, एसबीओएच द्वारा भी अपने स्टाल लगाकर जानकारी प्रदान की जाएगी. इच्छुक दिव्यांग अपने फोटो पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षिक / अनुभव प्रमाण पत्रों(मूल व फोटोकॉपी) के साथ प्रातः 9 बजे विकलांग व्यवसायिक केंद्र(वीआरसीएच), प्लॉट नंबर 9, 10, 11, कडकडडूमा, विकास मार्ग दिल्ली-110092 में पहुँच कर इस रोजगार मेले का लाभ उठा सकता है.

## **JOB FAIR FOR PwDs**

Job Fair for Divyangjan is inaugurated by Social Justice & Empowerment Minister on 7 September 2016

New Delhi: National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) is organizing a Job Fair for Divyangjan, dedicated for Persons with Disabilities (PwDs) on 7-8 September 2016 at Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped (VRCH), New Delhi. Mr Thaawarchand Gehlot, Union Minister for Social Justice & Empowerment will inaugurate the Job Fair.

The Job Fair for Divyangjan (PwDs) is being organized by NHFDC in collaboration with training partners VRCH, New Delhi, HARDICON, NSIC, New Delhi and Skill Council for Persons with Disability, New Delhi.

The Job Fair for Divyangjan (PwDs) Details:

Date: 7-8 September 2016

Venue: Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped (VRCH) Plot No. 9, 10, 11, Karkardooma, Vikas Marg, Delhi-110092











